



सत्यमेव जयते

# श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

## अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

---

11 फाल्गुन, 1939 शक

भोपाल, सोमवार, 26 फरवरी 2018

---

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधानसभा के इस पाँचवें बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत - वंदन - अभिनंदन।
2. मेरी सरकार “सबका साथ-सबका विकास” की अवधारणा से कार्य कर रही है। मेरी सरकार की निगाह से कोई भी वर्ग और तबका भूला-बिसरा नहीं रहा है। जाति, धर्म और वर्ग से परे सरकार की योजनाओं का लाभ सभी के लिये सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2017 को पं. दीनदयाल जन्म-शताब्दी वर्ष के रूप में गरीब कल्याण को समर्पित किया गया। सरकार की कोशिश रही कि गरीब कल्याण

का एजेण्डा समाज और सरकार का साझा एजेण्डा बने। मेरी सरकार की प्राथमिकता हर गरीब के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ पढ़ाई, दवाई और रोजगार है और रहेगी।

3. मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जावान और कल्पनाशील नेतृत्व में देश और समाज के निर्माण में हमकदम है। प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप योजनाओं के अमल में प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और लोगों की तरक्की और खुशहाली के कामों में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। मुझे विश्वास है कि सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होगी।
4. प्रदेश की जीवन-रेखा नर्मदा नदी के संरक्षण को जन-आन्दोलन बनाने के लिये नदी के दोनों तट पर 144 दिन में 3 हजार 350 कि.मी. की नमामि देवी नर्मदे -सेवा यात्रा की गई। यात्रा से नर्मदा तटीय क्षेत्र में जन -समुदाय को नदी के संरक्षण की जरूरत और वानस्पतिक आच्छादन, स्वच्छता और साफ-सफाई, मृदा और जल-संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया।

